



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 वैशाख, 1940 (श०)

संख्या- 472 राँची, शुक्रवार

4 मई, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

11 अप्रैल, 2018

कृपया पढ़ें:-

1. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-5337, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 एवं पत्रांक-1059, दिनांक 22 मार्च, 2018
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का आदेश सं०-12015, दिनांक 8 दिसम्बर, 2017, पत्रांक-12221, दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 एवं पत्रांक-555, दिनांक 18 जनवरी, 2018

संख्या- 2431-- श्री चन्दन, झा०प्र०से० (पंचम बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, केरेडारी, हजारीबाग, सम्प्रति-निलंबित के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-5337, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 द्वारा अनधिकृत रूप से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित

रहने, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता बरतने संबंधी आरोप प्रपत्र-‘क’ में गठित कर उपलब्ध कराते हुए इनको निलंबित करने एवं इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की गयी ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय आदेश सं०-12015, दिनांक 8 दिसम्बर, 2017 द्वारा श्री चन्दन को निलंबित किया गया तथा विभागीय पत्रांक-12221, दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी है, जिसके अनुपालन में श्री चन्दन ने पत्र, दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया ।

श्री चन्दन के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-555, दिनांक 18 जनवरी, 2018 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गयी । ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1059, दिनांक 22 मार्च, 2018 द्वारा इनके स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि श्री चन्दन द्वारा अपने प्रशिक्षण अवधि में दिनांक 24 जून, 2017 का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने तथा मुख्यालय छोड़ने हेतु आवेदन पर उपायुक्त, राँची के कार्यालय द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर अवकाश पर गये । इसके बाद लगातार उनके द्वारा दिनांक 28 जुलाई, 2017 एवं 17 अगस्त, 2017 को अस्वस्थ होने के कारण चिकित्सीय प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए योगदान देने में असमर्थता व्यक्त की गयी, जिसे विचारण हेतु विभागीय पत्रांक-5080, दिनांक 4 अक्टूबर, 2017 द्वारा कार्मिक विभाग को पत्र प्रेषित किया गया । स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर चिकित्सक के फिटनेश सर्टिफिकेट के आधार पर श्री चन्दन द्वारा दिनांक 13 नवम्बर, 2017 को अधिसूचित प्रखण्ड में योगदान समर्पित किया गया तथा उपायुक्त, हजारीबाग के आदेश सं०-1378, दिनांक 16 नवम्बर, 2017 के आलोक में दिनांक 18 नवम्बर, 2017 को अधिसूचित प्रखण्ड का प्रभार ग्रहण कर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पद का कार्य सम्पादित किया गया । उक्त बिन्दुओं के आधार पर श्री चन्दन से प्राप्त स्पष्टीकरण को स्वीकार किया जा सकता है ।

श्री चन्दन के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत श्री चन्दन, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, केरेडारी, हजारीबाग, सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त करते हुए आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव।
